

इस अंक में

सांप्रदायिक घटनाएं	1-4	न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया	9-12
सांप्रदायिक हिंसा और तनाव <ul style="list-style-type: none"> उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक विवाद तेलंगाना में सोशल पोस्ट से तनाव झारखंड में तनाव बिहार में तनाव राजस्थान में सांप्रदायिक विवाद मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक विवाद हिमाचल में तनाव 		<ul style="list-style-type: none"> अलीगढ़ में हिंदू महासभा के सदस्य गिरफ्तार गोरक्षकों के सुरक्षा कानून को कर्नाटक सरकार का समर्थन गोवा में हमले के बाद बीफ ट्रेडर्स ने पुलिस सुरक्षा की माँग की भद्रक हिंसा में बजरंग दल नेता गिरफ्तार बिलकिस बानो केस में 11 को उम्र कैद उज्जैन में बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार धनंजय देसाई ने किया जमानत का आवेदन गुजरात में दंगा पीड़ितों की मुआवजे की राशि में बढ़त अल्पसंख्यक आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई आरएसएस के स्कूलों को नोटिस पर संघ जाएगा हाईकोर्ट 1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी को जमानत हेट स्पीच मामले में विहिप नेता को सजा योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलाएगी यूपी सरकार अयोध्या मामले में आरोपियों को मिली जमानत राजस्थान में विहिप के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार उड़ीसा में बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार नरोदा पाटिया केस में नया मोड़ केरल में धार्मिक स्थल को क्षति पहुँचाने में गिरफ्तारी केरल कांग्रेस (युवा) के सदस्यों के खिलाफ शिकायत सेवेली सांप्रदायिक केस: 21को सजा गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो: राजस्थान हाईकोर्ट 	
सांप्रदायिक रणनीति	5-8		
<ul style="list-style-type: none"> प्रयाग क्षेत्र में राष्ट्र सेविका समिति का प्रसार सैन्य अधिकारियों ने की चरण वंदना राम मंदिर बनाने के लिए विहिप की सभा राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गौ संरक्षण पर कार्यक्रम भोपाल में हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने की हत्या बुलंदशहर में 'लव जेहाद' के आरोप में हत्या आरोग्य भारती का गर्भ विज्ञान संस्कार विहिप नेता ने किया 'सेक्युलर' शब्द का विरोध हिंदू युवावाहिनी के प्रसार से आरएसएस चिंतित उत्तरप्रदेश में हिंदू युवावाहिनी ने धर्मांतरण का आरोप लगाया मुजफ्फरनगर में बजरंग दल की मॉरल पोलिसिंग महाराष्ट्र में लगेगी नाथूराम गोडसे की मूर्ति फैजाबाद में घर वापसी कार्यक्रम आयोजित महाराष्ट्र में मांस विक्रेताओं पर हमला उज्जैन में गोमांस के आरोप में युवक की पिटाई 		शिक्षा का भगवाकरण	8
		<ul style="list-style-type: none"> आईआईएमसी के सेमिनार में यज्ञ का आयोजन एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव जातीय-सांप्रदायिक हिंसा के इतिहास पर पाठ्यक्रम का विरोध 	

सांप्रदायिक घटनाएं

सांप्रदायिक हिंसा एवं तनाव

घटनाएं	सम्मिलित संगठन/समूह	दिनांक और घटना स्थल
<p>उत्तरप्रदेश में सांप्रदायिक विवाद</p> <p>मेरठ मेरठ में एक छात्रा को कमरे में बंद करने के आरोप में तनाव हुआ। इस घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय लोग इकट्ठा हो गए। आरोपी मौलाना के विरोध के दौरान सांप्रदायिक नारे लगाए गए। पुलिस ने इस विवाद में मौलाना को गिरफ्तार किया। http://www.abplive.in/india-news/school-girl-found-with-a-cleric-sparks-communal-tension-in-meerut-522421 Date Accessed: 1/05/2017</p>	स्थानीय समुदाय	(तारीख अस्पष्ट) मेरठ
<p>संभल संभल जिले के सहारनपुर गाँव में एक प्रेम प्रसंग के विवाद में सांप्रदायिक हिंसा हुई। सांप्रदायिक तनाव की शुरुआत उस समय हुई जब यह खबर फैल गयी कि एक मुस्लिम युवक दूसरे समुदाय की नवब्याहता हिंदू लड़की को लेकर भाग गया। इसके बाद हिंसक भीड़ ने नंदरौली गाँव के कई घरों पर हमला किया और आग लगा दिया। http://www.abplive.in/india-news/ups-sambhal-village-engulfs-in-communal-tension-over-an-alleged-love-affair-several-houses-torched-526748 Date Accessed:</p>	स्थानीय समुदाय	11/05/2017 सहारनपुर, संभल
<p>फिरोजाबाद फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में दो समुदायों के बीच पतंग उड़ाने को लेकर विवाद हुआ। दोनों समुदाय के लोगों ने पथराव किया और एसिड की बोतलें फेंकी। आरोप है कि कटी हुई पतंग उठाने के लिए युवक बाल्मीकि समुदाय के एक परिवार की छत पर कूद गए और वहाँ मौजूद युवतियों से अभद्रता की। http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/crime/communal-tension-in-shikohabad-in-dispute-of-kite Date Accessed:15/05/2017</p>	स्थानीय समुदाय	15/05/2017 शिकोहाबाद, फिरोजाबाद
<p>आगरा आगरा के गाँव बलपुरा में सांप्रदायिक विवाद हुआ। दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे पर फायरिंग और पथराव किया। हिंसा में तीन लोग घायल हो गए। इससे पहले गाँव में आयोजित उर्स के दौरान विवाद हुआ था और दोनों पक्षों ने मिलकर विवाद खत्म कर दिया था। http://www.amarujala.com/uttar-pradesh/agra/crime/communal-tension-in-mainpuri-after-dispute-between-two-person Date Accessed:27/05/2017</p>	स्थानीय समुदाय	27/05/2017 बलपुरा, आगरा
<p>गोंडा गोंडा जिले के तरबगंज में एक धार्मिक स्थल से लौट रहे कुछ युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने तलवार से</p>	स्थानीय समुदाय	28/05/2017

<p>हमला किया। इस हमले में एक युवक की मौत हो गयी। इस घटना के विरोध में एक समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया और पुलिस के विरोध में नारे लगाए। http://www.livehindustan.com/uttar-pradesh/story-jam-and-protest-in-youth-murder-at-gonda-of-up-1114766.html Date Accessed: 29/05/2017 अमरोहा अमरोहा के गाँव सकतपुर में स्थित एक मस्जिद में भारतीय किसान संघ लोगों को नमाज नहीं पढ़ने दे रहा है। भारतीय किसान संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन है। संगठन का आरोप है कि मस्जिद का निर्माण अवैध है। इस विवाद के बाद से पुलिस तैनात है और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने पलायन की बात कही है। http://abpnews.abplive.in/india-news/communal-tension-in-amroha-muslims-are-not-allowed-to-perform-namaz-624407 Date Accessed: 27/05/2017 अलीगढ़ अलीगढ़ के विसारा गाँव में क्रिकेट खेलने के दौरान एक मुस्लिम युवक का मोबाइल गिर गया। बाद में उसे पाने वाले हिंदू लड़के से विवाद हुआ। इस विवाद में पहले परिवार और फिर समुदाय के लोग शामिल हो गए। पथराव के दौरान करीब 10 लोग घायल हुए। इसके अलावा एक अन्य विवाद मस्जिद और रामलीला मैदान के बीच दीवार उठाने को लेकर हुआ। http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/tension-in-aligarh-over-dispute-between-two-communities/articleshow/58915685.cms Date Accessed: 31/05/2017</p>	<p>भारतीय किसान संघ</p> <p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>तरबगंज, गोंडा</p> <p>(तारीख अस्पष्ट) सकतपुर, अमरोहा</p> <p>30/05/2017 विसारा, अलीगढ़</p>
<p>तेलंगाना में सोशल पोस्ट से तनाव तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में एक सोशल पोस्ट पर विवाद हुआ। जिले के उतनूर मंडल में एक समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन के दौरान कई दुकानों में आग लगा दिया। विहिप और बजरंग दल के लोग प्रदर्शनकारियों में शामिल थे। इस विवाद में कुछ पुलिसकर्मी घायल हो गए। http://www.thenewsminute.com/article/communal-violence-telangana-police-lob-teargas-shells-mob-pelts-stones-utnoor-61664 Date Accessed: 08/05/2017</p>	<p>विहिप, बजरंग दल</p>	<p>07/05/2017 आदिलाबाद, तेलंगाना</p>
<p>झारखंड में तनाव चाईबासा में अलग-अलग समुदाय के दो लड़कों के बीच पार्किंग को लेकर हुए विवाद से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा। दोनों समुदायों ने पथराव और फायरिंग की। हिंसा के दौरान चार लोग घायल हुए, जिसमें दो पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया। http://www.hindustantimes.com/india-news/police-officers-among-4-injured-as-communal-violence-breaks-out-in-jharkhand-s-chaibasa/story-NRtnDRRUvNEABr5ZgPMZmL.html Date Accessed: 09/05/2017</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>08/05/2017 चाईबासा, झारखंड</p>
<p>बिहार में तनाव बिहार के कटिहार जिले में चार महीने पहले बाइक दुर्घटना में मरी बकरी को लेकर तनाव हुआ। बकरी की मौत के बाद दोनों पक्षों (अनिल मेहता बनाम मोहम्मद इरफान) में तय हुआ था कि 500 रूपए का मुआवजा देना होगा। बाद में मुआवजा देने से मना करने पर दोनों पक्षों में विवाद बढ़ा और मोहम्मद इरफान पर हुए हमले के बाद दोनों पक्षों में हिंसक झड़प शुरू हो गयी, जिसने</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>(तारीख अस्पष्ट) कटिहार, बिहार</p>

<p>सांप्रदायिक विवाद का रूप ले लिया। http://www.hindustantimes.com/india-news/villagers-clash-over-unpaid-compensation-for-goat-killed-in-bihar-road-accident/story-k7UAirZIs6dLTGnfHztGYM.html Date Accessed: 11/05/2017</p>		
<p>राजस्थान में सांप्रदायिक विवाद बांसवाड़ा बांसवाड़ा जिले में शब-ए-बारात की रात धार्मिक स्थल को लेकर दो समुदाय के लोगों में विवाद हुआ। इस दौरान हुई हिंसा में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया और आगजनी हुई। इस घटना में तीन लोग घायल हुए। तनाव को देखते हुए प्रशासन ने धारा 144 लगा दिया। http://www.hindustantimes.com/india-news/communal-tension-in-in-rajasthan-s-banswara-curfew-imposed/story-7Sg8mNy9LY0KZ8YWt99LAK.html Date Accessed: 12/05/2017</p> <p>अलवर अलवर में स्कीम-3 फैमिली लाइन स्थित एक मजार के पास हिंदू देवता हनुमान की मूर्ति लगाने की कोशिश से तनाव हुआ। प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी और दोनों समुदायों के बीच हुए पहले के समझौते को मानने के लिए कहा। इसके विरोध में हिंदूवादी संगठनों ने पुलिस स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया। http://timesofindia.indiatimes.com/city/jaipur/installation-of-hindu-deity-near-grave-leads-to-communal-tension-in-alwar/articleshow/58689584.cms Date Accessed: 16/05/2017</p>	<p>स्थानीय समुदाय</p> <p>हिंदूवादी संगठन, स्थानीय समुदाय</p>	<p>11/05/2017 बांसवाड़ा</p> <p>15/05/2017 अलवर</p>
<p>मध्यप्रदेश में सांप्रदायिक विवाद इंदौर इंदौर के चंदन नगर इलाके में बछड़ों का शव मिलने से तनाव हुआ। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चंदन नगर पुलिस स्टेशन पर प्रदर्शन किया। जानवरों का कटा हुआ सिर मिलने की सूचना बजरंग दल के ही एक कार्यकर्ता ने दी थी। http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/calf-head-at-square-leads-to-tension/articleshow/58674928.cms Date Accessed: 15/05/2017</p> <p>भोपाल भोपाल में धार्मिक स्थल के विवाद में हिंसा हुई। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में एक खुदाई में मस्जिद मिलने पर दोनों समुदाय के लोगों ने इस पर अपना अधिकार जताया। इसके ठीक सामने एक मंदिर है। पीरगेट इलाके में जमा होकर एक समुदाय विशेष के लोगों ने पथराव और आगजनी की। http://www.newindianexpress.com/nation/2017/may/31/communal-tension-erupts-in-bhopal-over-offering-of-prayers-heavy-police-force-deployed-1611167.html Date Accessed: 31/05/2017</p>	<p>बजरंग दल</p> <p>स्थानीय समुदाय</p>	<p>(तारीख अस्पष्ट) चंदननगर, इंदौर</p> <p>30/05/2017 भोपाल</p>
<p>हिमाचल में तनाव रामपुर कस्बे में देव संस्कृति रक्षा मंच के कार्यकर्ताओं ने ईसाई समुदाय को प्रार्थना करने से रोका। प्रार्थना सभा स्थानीय सरकारी स्कूल में आयोजित की गयी थी। संगठन ने इसका विरोध किया और भारत-तिब्बत नेशनल हाइवे को बाधित किया। आयोजन स्थल पर लगे पोस्टर भी कार्यकर्ताओं ने फाड़े और स्कूल के भीतर घुसने की कोशिश की।</p>	<p>देव संस्कृति रक्षा मंच</p>	<p>(तारीख अस्पष्ट) रामपुर, शिमला,</p>

<http://www.tribuneindia.com/news/himachal/communal-tension-grips-rampur/406996.html>
Date Accessed: 15/05/2017

हिमाचलप्रदेश

सांप्रदायिक रणनीतियां

सांप्रदायिक संगठन

रणनीतियां	सम्मिलित संगठन
<p>प्रयाग क्षेत्र में राष्ट्र सेविका समिति का प्रसार</p> <p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संगठन राष्ट्र सेविका समिति इलाहाबाद में शाखाओं की संख्या बढ़ाएगा। संगठन के दावों के अनुसार समिति के कार्यक्रमों में महिलाओं की उत्सुकता बढ़ी है और जिले में करीब 50 शाखाएं आयोजित की जाएंगी। समिति से प्रदेश में करीब 15,000 महिलाएं जुड़ी हैं।</p> <p>http://timesofindia.indiatimes.com/city/allahabad/rashtra-sevika-samiti-plans-to-set-up-50-shakhas-across-prayag-vibhag/articleshow/58479443.cms Date Accessed: 02/05/2017</p>	राष्ट्र सेविका समिति
<p>सैन्य अधिकारियों ने की चरण वंदना</p> <p>2 मई को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 'विद्या वीरता अभियान' का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में भारत माता की उस तस्वीर को लगाया गया जो आरएसएस इस्तेमाल करता आया है। भाजपा और आरएसएस के लोगों के साथ सेना के पदाधिकारी भी चरण वंदना भी शामिल हुए।</p> <p>https://www.telegraphindia.com/1170503/jsp/nation/story_149524.jsp#.WQmc_FPFqAx https://scroll.in/article/836472/the-rss-idea-of-india-is-not-just-being-spread-in-colleges-but-in-defence-forces-too Date Accessed: 03/05/2017</p>	मानव संसाधन विकास मंत्रालय
<p>राम मंदिर बनाने के लिए विहिप की सभा</p> <p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े 22 देशों से 150 से अधिक एनआरआई दिल्ली और लखनऊ में एक सभा में शामिल हुए। विहिप के कार्यक्रम में आए एनआरआई दल ने उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की और मंदिर निर्माण की माँग की। एनआरआई दल अयोध्या भी गया।</p> <p>https://scroll.in/article/836881/amit-shah-yogi-adityanath-meet-nri-donors-pressing-for-work-to-begin-on-ram-temple-in-ayodhya Date Accessed: 07/05/2017</p>	विश्व हिंदू परिषद
<p>राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का गौ संरक्षण पर कार्यक्रम</p> <p>रुड़की में आरएसएस के संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच गौ संरक्षण पर कार्यक्रम आयोजित किया। दो दिवसीय आयोजन में 300 के करीब मौलाना शामिल हुए। संगठन ने फैसला लिया कि रमजान के दौरान 'नो बीफ, नाऊ काउ मिल्क पार्टी' का आयोजन करेगा। संगठन राम मंदिर निर्माण के समर्थन के लिए भी काम कर रहा है।</p> <p>http://www.jansatta.com/rajya/uttar-pradesh/lucknow/muslim-rashtriya-manch-mrm-will-start-a-campaign-during-the-month-of-ramzan-called-no-beef-party-now-cow-milk-party/318028/ Date Accessed: 08/05/2017</p>	राष्ट्रीय मुस्लिम मंच
<p>भोपाल में हिंदू संगठन के अध्यक्ष ने की हत्या</p>	

<p>भोपाल में राष्ट्रीय हिंदू संगठन के जिलाध्यक्ष शिवाजी पाटिल ने सलमान नाम के युवक की हत्या कर दी। सलमान को 200 सौ मीटर तक खींचकर ले जाया गया और वहाँ खड़े पानी के टैंकर में उसका सिर लड़ाकर मार दिया गया। 4 में से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/india-news/muslim-youth-beaten-by-hindutva-leader-dies-in-bhopal/story-amShHaQ2mchxQOP9RQTmpM.html Date Accessed:08/05/2017</p>	<p>राष्ट्रीय हिंदू संगठन</p>
<p>बुलंदशहर में 'लव जेहाद' के आरोप में हत्या</p> <p>बुलंदशहर में एक मुस्लिम बुजुर्ग की लाठी से पीठकर हत्या कर दी गयी। सोही गाँव में हुई यह घटना दूसरे समुदाय की लड़की भगाकर लाने के विवादों से जुड़ी हुई है। आरोप है कि हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने मुस्लिम युवक का सहयोग करने के कारण पड़ोसी बुजुर्ग की हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या के आरोपी 3 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है।</p> <p>https://scroll.in/article/836528/how-hindu-yuva-vahinis-name-got-linked-with-the-murder-of-a-muslim-man-in-bulandshahr https://thewire.in/133915/hindu-yuva-vahini-ghulam-ahmed/ http://indianexpress.com/article/india/fir-against-six-hindu-yuva-vahini-members-for-murdering-muslim-man-in-bulandshahr-4638700/ Date Accessed:09/05/2017</p>	<p>हिंदू युवा वाहिनी</p>
<p>आरोग्य भारती का गर्भ विज्ञान संस्कार</p> <p>आरएसएस की स्वास्थ्य ईकाई आरोग्य भारती की एक परियोजना 'गर्भ विज्ञान संस्कार' अब उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी चलेगी। यह पहले से गुजरात और मध्यप्रदेश में चल रही है। आरएसएस इसके जरिए प्रचारित कर रहा है कि उत्तम संतान पाने के लिए माता-पिता का तीन महीने का शुद्धिकरण, ग्रहों के अनुसार संभोग आवश्यक है।</p> <p>http://indianexpress.com/article/india/rss-wing-has-prescription-for-fair-tall-customised-babies-4644280/ http://indianexpress.com/article/opinion/web-edits/rss-custom-babies-and-their-theory-of-aryans-as-the-original-hindus/ Date Accessed:12/05/2017</p>	<p>आरोग्य भारती</p>
<p>विहिप नेता ने किया 'सेक्युलर' शब्द का विरोध</p> <p>विहिप नेता प्रवीण तोगड़िया ने भदोही (उ.प्र.) में कहा है कि भारत के संविधान से 'धर्म निरपेक्ष' शब्द निकाल देने से भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। इससे सुनिश्चित हो जाएगा कि भारत के प्रमुख पदों पर केवल हिंदू नियुक्त होंगे। विहिप नेता ने कहा कि सभी हिंदुओं के लिए एक दिन होना चाहिए जब वे धार्मिक आयोजन के लिए इकट्ठा हों।</p> <p>http://www.firstpost.com/politics/vhp-leader-pravin-togadia-remove-secular-from-constitution-of-india-3446974.html Date Accessed:15/05/2017</p>	<p>विश्व हिंदू परिषद</p>
<p>हिंदू युवा वाहिनी के प्रसार से आरएसएस चिंतित</p> <p>उत्तरप्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी के बढ़ते प्रभाव को लेकर आरएसएस चिंतित है। आरएसएस ने संगठन भंग करने के लिए कहा है। कहा जा रहा है कि एक मीटिंग में उठाए गए इन सवालों के बाद ही हिंदू युवा वाहिनी ने सदस्यता अभियान को बंद कर दिया है। संघ को डर है कि एक स्वतंत्र संगठन के रूप में हिंदू युवा वाहिनी का प्रभाव बढ़ने से संगठन में विवाद बढ़ेगा।</p>	<p>हिंदू युवा वाहिनी, आरएसएस</p>

<p>https://scroll.in/article/837614/rss-asks-adityanath-to-disband-the-hindu-yuva-vahini Date Accessed:16/05/2017</p>	
<p>उत्तरप्रदेश में हिंदू युवा वाहिनी ने धर्मांतरण का आरोप लगाया भदोही में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने तिउरी गाँव में जबरन धर्मांतरण का आरोप लगाया। इस मामले में केरल के एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोप है कि एक घर को चर्च की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। http://indiatoday.intoday.in/story/hyv-activists-create-ruckus-over-conversion-of-dalits/1/957944.html Date Accessed:19/05/2017</p>	<p>हिंदू युवा वाहिनी</p>
<p>मुजफ्फरनगर में बजरंग दल की मॉरल पोलिसिंग मुजफ्फरनगर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने दो युवकों की पिटाई की। दोनों एक महिला से मिलने के लिए गए थे। मॉरल पोलिसिंग के इस मामले में दोनों युवकों को कपड़े उतरवाकर सार्वजनिक जगह पर पीटा गया। पुलिस ने आरोपी कार्यकर्ताओं के साथ-साथ पीड़ित युवकों पर धारा-151 के तहत मामला दर्ज किया। https://khabar.ndtv.com/news/uttar-pradesh/up-bajrang-dal-workers-took-law-on-to-hands-in-muzaffarnagar-1696267 Date Accessed:21/05/2017</p>	<p>बजरंग दल</p>
<p>महाराष्ट्र में लगेगी नाथूराम गोडसे की मूर्ति मेरठ में नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगाने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा महाराष्ट्र में गोडसे की मूर्ति लगाएगी। कल्याण के सपाड इलाके में इसे लगाया जाएगा। संगठन ने सपाड में 2000 एकड़ जमीन खरीदा है। कांग्रेस के विरोध के बाद राज्य सरकार ने कहा है कि सरकार राज्य में कहीं भी नाथूराम गोडसे का स्मारक नहीं बनने देगी। http://indianexpress.com/article/india/hindu-mahasabha-to-install-nathuram-godse-bust-near-mumbai-4667331/ Date Accessed:22/05/2017</p>	<p>अखिल भारतीय हिंदू महासभा</p>
<p>फैजाबाद में 'घर वापसी' कार्यक्रम आयोजित 20 मई को फैजाबाद के एक मंदिर में 24 मुस्लिमों ने धर्मांतरण किया। इससे पहले अप्रैल में 19 मुस्लिमों का 'घर वापसी' के तहत धर्मांतरण कराया गया था। दावा किया गया है कि आगे 100 से ज्यादा परिवारों का धर्मांतरण होगा। सभी धर्मांतरित लोग नट समुदाय से हैं। https://scroll.in/article/838416/yogi-effect-rss-men-convert-43-muslims-in-uttar-pradesh-to-hinduism Date Accessed:23/05/2017</p>	<p>राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ</p>
<p>महाराष्ट्र में मांस विक्रेताओं पर हमला वसीम जिले के मालेगाँव में 7 लोगों ने गोमांस के आरोप में तीन मांस विक्रेताओं पर हमला किया। हमलावर बजरंग दल से जुड़े हुए हैं। कार्यकर्ताओं ने पिटाई का वीडियो बनाया और जय श्रीराम बोलने के लिए कहा। पुलिस ने इस मामले में सभी हमलावरों के साथ 2 मांस विक्रेताओं की भी गिरफ्तारी की है। http://www.dnaindia.com/india/report-watch-cow-vigilantes-thrash-traders-for-allegedly-possessing-beef-force-them-to-say-jai-shree-ram-2454388 http://indianexpress.com/article/india/three-beef-traders-from-malegaon-assaulted-nine-arrested-4680140/</p>	<p>बजरंग दल</p>

Date Accessed: 30/05/2017	
<p>उज्जैन में गोमांस के आरोप में युवक की पिटाई</p> <p>उज्जैन में एक रेस्टोरेंट में काम करने वाले 17 साल के युवक अप्पू मालवीय को कुछ लोगों ने पीटा। वे आरोप लगा रहे थे कि युवक गोमांस के व्यापार से जुड़ा हुआ है। इस मामले में पीड़ित ने 10 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पिटाई करने वाले लोगों का संबंध किसी गोरक्षक संगठन से नहीं है।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/bhopal/teen-in-possession-of-cow-tail-beaten-up-in-ujjain-hospitalised-3-held/story-jjKtwWzevJxKXyd8naoHhJ.html</p> <p>Date Accessed:31/05/2017</p>	
शिक्षा का भगवाकरण	
<p>आईआईएमसी के सेमिनार में यज्ञ का आयोजन</p> <p>इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन में पत्रकारिता पर एक सेमिनार के पहले यज्ञ आयोजन किया गया। इसका विरोध कर रहे समूह ने आरोप लगाया कि संस्थान के निदेशक इसके जरिए हिंदुत्व अजेंडे को लागू कर रहे हैं। सेमिनार में आरएसएस से जुड़े लोग शामिल हुए।</p> <p>https://thewire.in/137405/iimc/</p> <p>Date Accessed:19/05/2017</p>	<p>इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मॉस कम्युनिकेशन, मीडिया स्कैन</p>
<p>एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव</p> <p>एनसीईआरटी की कक्षा-12 की किताब में गुजरात दंगों को अब 'मुस्लिम विरोधी दंगा' नहीं लिखा जाएगा। सीबीएसई और एनसीईआरटी की एक मीटिंग में इसका फैसला किया गया। 2007 में यूपीए सरकार के दौरान ये किताबें तैयार की गयी थीं।</p> <p>http://www.hindustantimes.com/education/ncert-class-12-textbooks-won-t-describe-2002-gujarat-riots-anti-muslim/story-js5sdRrNsobhw881zxnaUM.html</p> <p>Date Accessed:20/05/2017</p>	<p>एनसीईआरटी, सीबीएसई (भारत सरकार)</p>
<p>जातीय-सांप्रदायिक हिंसा के इतिहास पर पाठ्यक्रम का विरोध</p> <p>इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च के चेयरमैन ब्रज बिहारी कुमार ने कहा है कि स्कूलों में सांप्रदायिक और जातीय हिंसा के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे वे एक्टिविस्ट बन जाते हैं और उनका सीखना रुक जाता है। ब्रज बिहारी कुमार अपने एक लेख में यह भी बता चुके हैं कि प्राचीन भारत में जाति नहीं थी।</p> <p>http://www.huffingtonpost.in/2017/05/28/school-students-shouldnt-read-about-caste-communal-violence-in-a-22113363/</p> <p>Date Accessed:28/05/2017</p>	<p>इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च</p>

न्यायिक और प्रशासनिक प्रक्रिया

अलीगढ़ में हिंदू महासभा के सदस्य गिरफ्तार

अलीगढ़ पुलिस ने हिंदू महासभा के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इन कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने कलेक्टर ऑफिस के बाहर की जगह का शुद्धिकरण करने की कोशिश की। मस्जिद में पानी जमा होने के कारण मुस्लिमों ने यहाँ नमाज पढ़ी थी।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/agra/hindu-mahasabha-members-detained-for-purifying-spot-where-muslims-offered-namaz/articleshow/58448648.cms>

Date Accessed:01/05/2017

गोरक्षकों के सुरक्षा कानून को कर्नाटक सरकार का समर्थन

कांग्रेस नेतृत्व की कर्नाटक सरकार ने गोरक्षकों को सुरक्षा देने वाले कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव किया। राज्य सरकार ने मांग किया है कि कानून की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज किया जाए। गोरक्षकों को सुरक्षा देने वाले 6 राज्यों से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब माँगा था। जिसमें से सिर्फ कर्नाटक ने जवाब दिया है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/karnataka-defends-law-for-protection-of-gau-rakshaks/articleshow/58501313.cms>

Date accessed: 03/05/2017

गोवा में हमले के बाद बीफ ट्रेडर्स ने पुलिस सुरक्षा की माँग की

गोवा में बीफ व्यापारियों ने गोरक्षकों के हमले से सुरक्षा की माँग की। कुरेशी मीट ट्रेडर्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ने एक प्रेस कांफ्रेंस आयोजित कर राज्य सरकार से माँग किया कि उन्हें पुलिस सुरक्षा दी जाए। इससे पहले बीफ के बचे-खुचे हिस्से को सरकारी केन्द्र पर भेजने के दौरान गोरक्षकों ने हमला किया।

http://www.business-standard.com/article/news-ians/goa-beef-traders-demand-protection-against-cow-vigilantes-117050301293_1.html

Date Accessed:03/05/2017

भद्रक हिंसा में बजरंग दल नेता गिरफ्तार

उड़ीसा के भद्रक में हुई घटना में पुलिस ने बजरंग दल के राज्य सचिव मानस और भाजपा युवा मोर्चा के नेता को भी गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गयीं। पुलिस ने भद्रक हिंसा में 275 लोगों को गिरफ्तार किया है। भद्रक की घटना अप्रैल में हुई थी।

<http://www.newindianexpress.com/states/odisha/2017/may/03/bajrang-dal-leader-arrested-in-bhadrak-for-inciting-communal-violence-1600466.html>

Date Accessed:03/05/2017

बिलकिस बानो केस में 11 को उम्र कैद

बिलकिस बानो केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने 11 दोषियों की उम्रकैद की सजा को बनाए रखा है। सभी आरोपियों ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में अपील की थी। इसके अलावा कोर्ट ने 3 दोषियों को फाँसी देने की सीबीआई की याचिका को खारिज कर दिया है।

<http://indiatoday.intoday.in/story/bilkis-bano-bombay-high-court/1/945219.html>

Date Accessed:04/05/2017

उज्जैन में बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार

उज्जैन पुलिस ने बजरंग दल कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। कथित तौर पर एक युवती को प्रताड़ित करने के मामले में आरोपी युवक का बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने मुंडन कराया और जबरन धार्मिक नारे लगवाए। इस मामले में युवती के भाई पर भी केस दर्ज किया गया है।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/indore/bajrang-dal-men-booked-for-tonsuring-youth-on-girls-complaint-in-ujjain/articleshow/58520700.cms>

Date Accessed:04/05/2017

धनंजय देसाई ने किया जमानत का आवेदन

हिंदू राष्ट्र सेना के मुखिया धनंजय देसाई ने स्वास्थ्य कारणों से चार सप्ताह की जमानत की अनुमति माँगी। देसाई सहित 20 अन्य आरोपियों पर

पुणे के मोहसिन शेख हत्याकांड का मुकदमा चल रहा है। देसाई पर आरोप है कि उनके सार्वजनिक भाषणों के कारण हिंसा हुई।

<http://timesofindia.indiatimes.com/city/pune/hrs-chief-seeks-bail-for-4-weeks/articleshow/58540414.cms>

Date Accessed:06/05/2017

गुजरात में दंगा पीड़ितों की मुआवजे की राशि में बढ़त

गुजरात सरकार के आँकड़ों के अनुसार 2016 में पिछले पाँच सालों की तुलना में दंगों और सड़क दुर्घटना के मामले में सबसे ज्यादा मुआवजा दिया गया। 2016 में सरकार ने मुआवजे के रूप में 3.06 करोड़ रूपए दिए। जबकि इससे पहले यह राशि 2012 से 2015 के बीच क्रमशः 33.14 लाख, 20.40 लाख, 61.20 लाख और 60.36 लाख थी। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मुआवजे की राशि के आधार पर कहा जा सकता है कि राज्य सरकार का दावा झूठा है कि गुजरात में सांप्रदायिक दंगे नहीं होते।

<http://ahmedabadmirror.indiatimes.com/ahmedabad/others/highest-relief-paid-to-riot-victims-in-2016/articleshow/58600564.cms>

Date Accessed:09/05/2017

अल्पसंख्यक आयोग की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई

अल्पसंख्यक आयोग ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह को भाजपा नेताओं के सांप्रदायिक टिप्पणियों के संबंध में लिखित शिकायत की, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आयोग 2014 के सहारनपुर केस, त्रिलोकपुरी दंगा, फरीदाबाद की घटना, दादरी कांड सहित साक्षी महाराज, भाजपा विधायक ऊषा ठाकुर, योगी आदित्यनाथ, राम कठेरिया के आपत्तिजनक बयानों पर शिकायत कर चुका है।

<http://indiatoday.intoday.in/story/bjp-hate-speech-national-commission-for-minorities/1/948864.html>

Date Accessed:09/05/2017

आरएसएस के स्कूलों को नोटिस पर संघ जाएगा हाईकोर्ट

पश्चिम बंगाल में आरएसएस के 125 स्कूलों को बंद करने के खिलाफ आरएसएस से जुड़ा विवेकानंद विद्या विकास परिषद कलकत्ता हाईकोर्ट जाएगा। विहिप नेता ने बयान दिया है कि बंगाल में 5000 मंदिर हैं तो उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? राज्य में 325 शिशु मंदिर हैं, जिनमें से 9 को राज्य सरकार ने नोटिस भेजा है।

<http://www.news18.com/news/politics/will-go-to-hc-over-notices-to-our-schools-says-rss-affiliated-body-1397877.html>

Date Accessed:10/05/2017

1984 सिख विरोधी दंगों के दोषी को जमानत

1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक दोषी को जमानत मिल गयी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने पूर्व कांग्रेसी पार्षद बलवान खोखर को पत्नी के इलाज के लिए जमानत पर रिहा किया। सीबीआई ने बलवान खोखर की जमानत याचिका का विरोध किया था।

<http://www.firstpost.com/india/delhi-hc-grants-bail-to-1984-sikh-riots-convict-on-humanitarian-grounds-3438640.html>

Date Accessed:11/05/2017

हेट स्पीच मामले में विहिप नेता को सजा

नवंबर 2008 में हेट स्पीच के मामले में विहिप नेता आचार्य धर्मेन्द्र को राजस्थान कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई। आरोपी सेशन कोर्ट में इस फैसले को चुनौती देगा। 27 नवंबर, 2008 को बारान पुलिस ने विहिप नेता पर केस दर्ज किया था।

<http://www.freepressjournal.in/india/vhp-leader-acharya-dharmendra-gets-1-yr-jail-for-hate-speech/1067119>

Date Accessed:12/05/2017

योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलाएगी यूपी सरकार

गोरखपुर दंगों के दौरान सांप्रदायिक भाषण देने के आरोपी योगी आदित्यनाथ पर मुकदमा नहीं चलेगा। यूपी सरकार ने 11 मई की हाईकोर्ट की सुनवाई में यह बयान दिया है कि भाषण के टेप के साथ छेड़-छाड़ की गयी है। सरकार ने 4 मई की सुनवाई में सरकार का पक्ष ठीक से न रखने के आरोपों में सरकारी वकील को पद से हटा दिया।

<http://thewirehindi.com/8484/yogi-adityanath-and-gorakhpur-communal-riots/>

<http://www.asianage.com/india/politics/190517/up-government-counsel-misleads-court-in-riot-case-sacked.html>

Date Accessed: 19/05/2017

अयोध्या मामले में आरोपियों को मिली जमानत

अयोध्या में विवादित ढाँचा गिराने के मामले में भाजपा नेता राम बिलास वेदांती सहित चार आरोपियों ने सीबीआई की विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया और बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 अप्रैल को पारित आदेश के बाद विशेष अदालत ने 6 आरोपियों को हाजिर होने को कहा था।

<http://www.deccanherald.com/content/612629/babri-demolition-accused-former-bjp.html>

Date Accessed: 20/05/2017

राजस्थान में विहिप के 7 कार्यकर्ता गिरफ्तार

भीलवाड़ा जिले में विश्व हिंदू परिषद के 7 कार्यकर्ताओं को एक ट्रक फूँकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। बंजारा समुदाय के लोग 6 बैलों को राजसमंद जिले के अपने घर से भीलवाड़ा ले जा रहे थे। रास्ते में टोल टैक्स जमा करने के दौरान काफी संख्या में लोगों ने उन्हें रोका और 5,000 रुपए की माँग की। लोगों ने ड्राइवर और उसके सहायक की पिटाई की।

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/7-vhp-men-held-for-setting-banjara-mans-truck-ablaze-in-bhilwara/articleshow/58860659.cms>

Date Accessed: 26/05/2017

उड़ीसा में बजरंग दल कार्यकर्ता गिरफ्तार

उड़ीसा में रेलवे पुलिस ने बजरंग दल के दो कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की। उन पर पशु व्यापारियों पर हमला करने का आरोप है। गिरफ्तारी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हुई। बजरंग दल, हिंदू रक्षा संगठन और पीपुल्स फॉर एनीमल्स आर्गनाइजेशन के 25 सदस्यों ने ट्रेन से पीड़ितों को बाहर खींचकर पिटाई की थी।

<http://www.deccanchronicle.com/nation/in-other-news/280517/2-bajrang-dal-leaders-arrested-in-odisha-for-attack-on-cattle-transporters.html>

Date Accessed: 28/05/2017

नरोदा पाटिया केस में नया मोड़

केन्द्र सरकार ने नरोदा पाटिया केस में माया कोडनानी और बाबू बजरंगी को फाँसी देने पर एसआईटी को दी गयी अनुमति पर रोक लगा दिया है। गुजरात हाईकोर्ट ने पत्नी के ईलाज के लिए बाबू बजरंगी को 15 वीं पर जमानत दी। एसआईटी के समक्ष सुनवाई के दौरान एक गवाह ने बाबू बजरंगी और विहिप नेता जयदीप पटेल को 2002 के दंगों के दौरान देखने से इंकार किया। दो अन्य गवाहों ने कुछ आरोपियों सहित माया कोडनानी को दंगे के दौरान देखने से इंकार कर दिया।

<http://aajtak.intoday.in/story/-naroda-patia-case-gujarat-government-withholds-death-appeal-for-maya-kodnani-babu-bajrangi-1-730496.html>

<http://timesofindia.indiatimes.com/india/gujarat-witness-didnt-see-babu-bajrangi-in-mob/articleshow/58758924.cms>

<http://ahmedabadmimr.com/ahmedabad/others/babu-bajrangi-gets-bail-for-15th-time/articleshow/58795653.cms>

<http://www.dnaindia.com/india/report-naroda-gam-riot-case-2-defence-witnesses-say-kodnani-wasn-t-2455027>

Date Accessed: 30/05/2017

केरल में धार्मिक स्थल को क्षति पहुँचाने में गिरफ्तारी

केरल में मंदिरों में हुई तोड़-फोड़ के मामले में पुलिस ने आपराधिक रिकार्ड के एक व्यक्ति मोहानाकुमार एस.एस. को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने मंदिरों में तोड़-फोड़ करने की बात स्वीकार कर ली है। घटना मलप्पुरम जिले में नीलांबुर इलाके के एक मंदिर की है। आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 A और धारा 295 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

<http://indiatoday.intoday.in/story/kerala-open-letter-communal-violence-india-politics/1/966660.html>

Date Accessed: 30/05/2017

केरल कांग्रेस (युवा) के सदस्यों के खिलाफ पुलिस शिकायत

केरल कांग्रेस की युवा ईकाई के तीन सदस्यों ने कोच्चि में भाजपा कार्यालय के सामने बीफ फेस्टिवल आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने खुले वाहन

में बछड़ा काटा और वहीं पकाकर खाया। वे गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध के केन्द्र सरकार के फैसले का विरोध कर रहे थे। भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज करायी।

<http://indianexpress.com/article/india/kerala-youth-congress-workers-suspended-for-slaughtering-calf-in-public-4678812/>

Date Accessed:30/05/2017

सेवेली सांप्रदायिक केस: 21 को सजा

जालना की अदालत ने 2008 के सेवेली सांप्रदायिक केस में एक व्यक्ति को आजवीन कारावास की सजा सुनाई। 3 आरोपियों को 10 साल सश्रम कारावास और 17 आरोपियों के 1 साल की सजा हुई है। इस मामले में 10 लोगों को बरी कर दिया गया। 3 अप्रैल, 2008 को सेवेली में एक आपत्तिजनक गीत बजने के बाद दंगा हो गया था।

<http://indianexpress.com/article/india/jalna-court-sentences-one-to-life-imprisonment-three-others-to-10-years-jail-in-riot-case-4682307/>

Date Accessed:31/05/2017

गाय राष्ट्रीय पशु घोषित हो: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस महेश चंद्र शर्मा ने हिंगोनिया गौशाला केस पर सुनवाई करते हुए सरकार को सुझाव दिया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जस्टिस शर्मा ने इसे आत्मा की आवाज बताया। अदालत राजस्थान में हिंगोनिया गौशाला के खराब प्रबंधन के संबंध में दी गयी याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

<http://www.firstpost.com/india/ban-on-sale-of-cattle-for-slaughter-rajasthan-high-court-asks-modi-govt-to-declare-cow-as-national-animal-3500963.html>

Date Accessed:31/05/2017

Connect with RGICS at: info@rgics.org; www.rgics.org



सूचना: यह केवल निजी प्रसार के लिए है। सभी लेख, खबरें मूल लेखों और खबरों का सार-संक्षेप है और इनके शीर्षकों में कहीं-कहीं बदलाव किया गया है।